



**SYLLABUS FOR ANNUAL EXAMINATION (2021-2022)**  
**For Grade-IX B**

Subject	Syllabus
HINDI	<p><b>कृतिका</b> पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ 4 माटी वाली</p> <p><b>क्षितिज</b> पाठ 4 सावले सपनों की याद पाठ 6 प्रेम चंद के फटे जूते पाठ 12 कैदी और कोकिला पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं</p> <p><b>रचनात्मक अभिव्यक्ति</b> अनुच्छेद लेखन पत्र लेखन संवाद लेखन लघु कथा</p>
ENGLISH	<p><b>Reading</b></p> <p>1. Unseen passages</p> <p><b>Writing</b></p> <p>1. Descriptive Paragraph (Diary) 2. Story writing (based on beginning line, outline, cues etc.)</p> <p><b>Grammar</b></p> <p>1. Subject-Verb Concord 2. Tenses 3. Modals 4. Determiners 5. Reported Speech 6. Commands and Requests 7. Statements 8. Questions</p> <p><b>Literature</b></p> <p><b>Beehive</b></p> <p>Prose</p> <p>1. Packing 2. Reach for The Top 3. The Bond of Love 4. If I were You</p> <p>Poetry</p> <p>1. No Men Are Foreign 2. On killing a Tree 3. The Snake Trying</p> <p><b>Moments</b></p> <p>1. Weathering the Storm in Ersama 2. The Last Leaf 3. A House is not a Home 4. The Beggar</p>

MATHEMATICS	Ch 2- Polynomials Ch 8- Quadrilaterals Ch 9- Areas of parallelograms and triangles Ch 10- Circles Ch 11- Construction Ch 13- Surface area and volume Ch 15- Probability
SOCIAL SCIENCE	<p><b><u>HISTORY</u></b>          C- 2 Socialism in Europe and The Russian Revolution          C- 3 Nazism and The Rise of Hitler</p> <p><b><u>GEOGRAPHY</u></b>          C- 3 Drainage -Only map work from this chapter          C- 4 Climate          C- 5 Natural Vegetation and Wild life</p> <p><b><u>POLITICAL SCIENCE</u></b>          C- 3 Electoral Politics          C- 4 Working of Institutions</p> <p><b><u>ECONOMICS</u></b>          C- 3 Poverty as a Challenge</p> <p><b>Question/Answers and Map work</b>  <u>History</u>          C-2 Socialism in Europe and The Russian Revolution (Major countries of First World War- Central Powers and Allied Powers)-Political Map World          C-3 Nazism and The Rise of Hitler (Major Countries of Second World War (Axis Powers and Allied Powers), Territories of German expansion  <u>Geography</u>          C-3 Drainage (Rivers and Lakes)          C-4 Climate (Areas receiving rainfall less than 20cm and over 400cm          C-5 Natural Vegetation and Wildlife (Vegetation Types, National Parks, Bird Sanctuaries and Wildlife Sanctuaries)</p>
SCIENCE	<p><b><u>PHYSICS:</u></b>          1. Gravitation          2. Work and Energy</p> <p><b><u>BIOLOGY:</u></b>  <b><u>Theme: The World of the Living</u></b>  <b><u>Unit II: Organization in the Living World</u></b>  <b><u>Chapter – 13 Why do we fall ill Health and Diseases:</u></b> Health and its failure. Infectious and Non-infectious diseases, their causes and manifestation. Diseases caused by microbes (Virus, Bacteria and Protozoans) and their prevention; Principles of treatment and prevention. Pulse Polio programmes.</p> <p><b><u>CHEMISTRY:</u></b>          1. Atoms and Molecules          2. Structure of atoms</p>
INFORMATION TECHNOLOGY	<p><b><u>PART-A:</u></b>          UNIT 4: ENTREPRENEURIAL SKILLS-I          UNIT 5: GREEN SKILLS-I</p> <p><b><u>PART-B:</u></b>          UNIT 4: ELECTRONIC SPREADSHEET          UNIT 5: DIGITAL PRESENTATION</p>